



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों व धर्मगुरुओं के साथ आयोजित की गयी पीस कमेटी की बैठक ।

आज दिनांक 15.06.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पीस कमेटी की बैठक का आयोजन थाना कोतवाली नगर महोबा में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम की अध्यक्षता में व उपजिलाधिकारी नगर श्री जितेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय की मौजूदगी में सम्पन्न हुआ जिसमें पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न समुदाय के उपस्थित सभी धर्मों के धर्मगुरुओं व संभ्रांत व्यक्तियों को जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न कराने के लिए बधाई दी गई तथा इसी प्रकार आगामी आने वाली शुक्रवार की नमाज को भी शान्ति पूर्ण माहौल व आपसी भाईचारे की भावना से सम्पन्न कराने की अपील की गई ।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा बताया गया कि पुलिस प्रशासन अपनी कार्यशैली को लेकर निष्पक्ष, निर्भीक व विधि संगत कार्य करने के लिए कटिबद्ध है, जनपद के लोगों की सेवा के लिए हम सदैव तत्पर हैं बेहतर सुरक्षा का भाव जागृत करना, सभी की हर सम्भव मदद करना व अराजकतत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही का हमारा प्रमुख उद्देश्य है, साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ने आसामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का स्पष्ट संदेश भी दिया गया ।

इस अवसर पर नगर अपर पुलिस अधीक्षक, उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर महोबा व क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति उपस्थित रहे।

इसी क्रम में थाना चरखारी में भी प्रभारी निरीक्षक चरखारी श्री उमापति मिश्रा द्वारा चौकी प्रभारी सूपा की मौजूदगी में थाना परिसर में थानाक्षेत्र के सम्भ्रान्त, विभिन्न संप्रदाय के धर्मगुरुओं से साथ बैठक की कर शान्ति बनाये रखने की अपील की गयी ।



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice

7839857330



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 08 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 14.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण थाना प्रभारी कोतवाली महोबा व.उ.नि. श्री गोपालचन्द्र कनौजिया द्वारा गठित की गयी उ0नि0 उपेन्द्र प्रताप सिंह व उ0नि0 मलखान सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम व शान्ति व्यवस्था, तलाश वाँछित वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान मुखबिर की सूचना पर सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 08 नफर अभियुक्तों को घटनास्थल शिशु शिक्षा निकेतन जूनियर हाईस्कूल के पीछे वहद ग्राम शुक्लानापुरा से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से मालफड रुपये 40,450/- जामातलाशी 4050/- रु0 व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद करते हुये थाना हाजा पर मु.अ.सं. 246/22 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की गयी।

अपराध विवरण:-

मु.अ.सं. 246/22 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना कोतवाली नगर जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 उपेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
2. उ0नि0 मलखान सिंह
3. हे0का0 सुरेश कुमार
4. कां0 आकाश सिंह चौहान

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुनील सोनी पुत्र स्व0 रामनाथ उम्र 44 वर्ष
2. महेश सोनी पुत्री स्व0 देवकीनन्दन सोनी उम्र 45 वर्ष
3. मो0 यूनश पुत्र स्व0 पीरबक्स उम्र 55 वर्ष
4. इसराइल पुत्र स्व0 रमजान उम्र 40 वर्ष
5. बल्लू सोनी पुत्र स्व0 काशीप्रसाद उम्र 32 वर्ष
6. महेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 नवल किशोर गुप्ता उम्र 48 वर्ष
7. दिलीप गुप्ता पुत्र रमेश गुप्ता उम्र 46 वर्ष
8. उमेश कुमार सोनी पुत्र स्व0 सीताराम सोनी उम्र 47 वर्ष





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना चरखारी पुलिस टीम ने अवैध शराब सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम अभियान के अनुपालन के क्रम में दिनांक 14.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना चरखारी प्रभारी निरीक्षक उमापति मिश्रा द्वारा गठित की गयी उ.नि. सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया मय हमराह का.अनूप रत्ना व का.धर्मेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम गौरहारी गौशाला के पास से 01 नफर अभियुक्त ईश्वरदास पुत्र कालीचरन उम्र 65 वर्ष नि.ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद पिपिया मे 20 ली. कच्ची शराब महुआ बरामद हुआ। जिसके विरुद्ध थाना चरखारी में मु०अ०सं० 168/2022 धारा 60 Ex ACT बनाम ईश्वरदास पुत्र कालीचरन उम्र 65 वर्ष नि.ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. उ०नि० सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया थाना चरखारी जिला महोबा
2. का.अनूप रत्ना
3. का.धर्मेन्द्र कुमार थाना चरखारी

गिरफ्तार अभियुक्त :-

ईश्वरदास पुत्र कालीचरन उम्र 65 वर्ष नि.ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी :- 01 अदद पिपिया मे 20 ली. कच्ची शराब महुआ बरामद होना।



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice



7839857330



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना चरखारी पुलिस टीम ने 350 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तार अभियान के अनुपालन में जनपदीय पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व उसमें लिप्त तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 14.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चरखारी श्री उमापति मिश्रा द्वारा उ०नि० सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया मय हमराह का.अनूप रत्ना व का.धर्मेन्द्र के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया जिनके द्वारा बस स्टाफ बहद ग्राम गुढ़ा से अभियुक्त चरन सिंह उर्फ हल्के पुत्र स्व० मोहनलाल राजपूत उम्र 68 वर्ष नि.ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 350 ग्राम गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 169/22 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
2. का.अनूप रत्ना
3. का.धर्मेन्द्र

गिरफ्तार अभियुक्त--

चरन सिंह उर्फ हल्के पुत्र स्व० मोहनलाल राजपूत उम्र 68 वर्ष नि.ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी -

अभियुक्त के कब्जे से कुल 350 ग्राम गांजा बरामद होना



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice

7839857330



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा




पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा।



आज दिनांक 15.06.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर पैदल गस्त करते हुए स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
यातायात नियमों के उल्लंघन पर 117 ई-चालान किये गये।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice



7839857330